



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2005/माघ 13, 1926

No. 104]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005/MAGHA 13, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 122(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले उन बीजों की किस्मों के, जो नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं, और इस प्रकार के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्मों, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण भारत के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्मों होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	किस्म	प्रकार
(1)	(2)	(3)
1.	धान	एच के आर - 126
2.	धान	एस वाई ई - 2001
3.	धान	पालम धान - 957(आईईटी - 13795)
4.	धान	शरावती (आई आर - 57773)
5.	धान	जे आर - 503(रिचा)(आईईटी 16783)
6.	धान	पूसा सुगंध-5(आईईटी - 17021)

7.	धान	सुरुची 5401 (एमपीएच 5401)
8.	धान	सुगंधमती (आईईटी-16775)
9.	धान	जी आर - 9
10.	धान	पी के वी मकरंद
11.	धान	पीवीके-एसकेएल-3-11-25-30-36
12.	धान	इंदिरा धान - 1(आईईटी-15376)(आर 636-405)
13.	जौ	एनडीबी - 1173
14.	जौ	वी एल जौ - 56
15.	गेहूँ	पालम (एचपीडब्ल्यू - 184)
16.	गेहूँ	चंद्रिका (एचपीडब्ल्यू-184)
17.	गेहूँ	वी एल गेहूँ - 802
18.	गेहूँ	उर्जा (एच डी - 2864)
19.	गेहूँ	एम ए सी एस - 6145
20.	सोरघम	परभनी मोती (पीवीआर - 396/एसपीवी-1411)
21.	चारा सोरघम	गुजरात चारा सोरघम - 5
22.	मक्का	प्रताप मक्का - 3(ईसी - 3108)
23.	मक्का	सुपर कोहिनूर (बिस्को - 2418)
24.	मक्का	विन ऑरेन्ज स्वीटकान
25.	मक्का	बी आई ओ 9636 (बी आई ओ 9636)
26.	मक्का	वी एल बेबी कार्न - 1(वी एल - 78)
27.	मक्का	डी के - 984(2784)
28.	मक्का	आई सी - 8209(72ए)
29.	मक्का	विवेक मक्का संकर - 15(एफ एच - 3176)
30.	मक्का	विवेक मक्का संकर 17(एफ एच - 3186)
31.	मक्का	आजाद कमल (आर 9803)
32.	बाजरा	प्रोग्रो - 9444(एम एस एच - 118)
33.	बाजरा	परभनी संपदा (पीपीसी-6)
34.	मूंगफली	कादिरी-5
35.	मूंगफली	कादिरी-6
36.	मूंगफली	प्रुथा (डी एच 86)
37.	मूंगफली	आर जी - 382
38.	अलसी	बिनवा (केएल-210)
39.	सोयाबीन	पालम सोया (पी - 30-1-1)
40.	सोयाबीन	टी ए एम एस - 38
41.	सूरजमुखी	प्रोसून-09(प्रो-009)
42.	सूरजमुखी	के सी एस एच - 41

43.	सूरजमुखी	के बी एस एच - 42
44.	सूरजमुखी	डी आर एस एफ - 108
45.	रेड क्लोवर	पी आर सी - 3
46.	भारतीय सरसों	सी एस - 54 (सी एस 614-4-1-4)
47.	रामतिल	एनआरएस - 96-1
48.	रामतिल	बिरसा रामतिल -2(बीएनएस-8)
49.	कुसुम	फूल कुसुम (जे एल एस एफ - 414)
50.	सनई	नरेंद्र सनई - 1
51.	सनई	सैलाश (एस एच -4)
52.	डैन्वा	पंत डैन्वा -1
53.	डैन्वा	डी एच - 2
54.	मेस्ता	निर्मल (एम टी - 150)
55.	फराशबीन	कैलाश (एस आर सी - 74)
56.	चिकपी	हरियाणा काबुली चना - 2 (एच के - 94-134)
57.	अरहर	मालिविया चमत्कार (एम ए एल - 13)
58.	कुलथी	प्रताप कुलथी - 1(ए के - 42)
59.	मोठ फली	सीएजेडआरआई मोठ-3(सीजेडएम-99)
60.	राईस बीन	विधान राईस बीन - 2 (केआरबी - 4)
61.	क्लस्टर बीन (ग्वार)	सूर्या (आरजीएम - 112)
62.	कपास	आरबीडीवी-7(प्रतापकापी-1)
63.	कपास	सीआईसीआर.2(सीआईएसएए-2)(जीएमएस आधारित संकर)
64.	कपास	श्रेष्ठ (सीएसएचएच (198)
65.	कपास	पी एच - 348(यमुना)
66.	कपास	पीए-402
67.	कपास	फुले एलजेए - 794
68.	कपास	महाबीज - 106
69.	कपास	महाबीज डीएच - 986
70.	टोस्सा पटसन	सुबाला (एस- 19)
71.	सफेद पटसन	जे आर सी - 80 (मिताली सफेद)
72.	जई	बुंदेल जई 992 (जेएचओ 99-2)
73.	सेतारिया घास	सेतारिया .92
74.	लंबी फेस्क्यू घास	हिम - 4

75.	गिनी घास	बुंदेल गिनी - 1 (जे एच जी जी -96-5)
76.	गन्ना	स्वेता (सीओएस 94270)

[फा. सं. 17-6/2004-एसडी-IV]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Agriculture and Co-operation)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2005

**S.O. 122(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purposes of the said Act, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

**TABLE**

Serial No. (1)	Kind (2)	Variety (3)
1.	Paddy	HKR -126
2.	Paddy	SYE - 2001
3.	Paddy	Palam Dhan - 957 (IET - 13795)
4.	Paddy	Sharavathi (IR - 57773)
5.	Paddy	JR - 503 (Richa) (IET 16783)
6.	Paddy	Pusa Sugandh-5 (IET - 17021)
7.	Paddy	Suruchi 5401 (MPH 5401)
8.	Paddy	Sugandhamati (IET - 16775)
9.	Paddy	GR - 9
10.	Paddy	PKV Makarand
11.	Paddy	PVK-SKL-3-11-25-30-36
12.	Paddy	Indira Dhan -1 (IET - 15376) (R 636-405)
13.	Barley	NDB - 1173
14.	Barley	VL Barley - 56
15.	Wheat	Palam (HPW - 147)
16.	Wheat	Chandrika (HPW - 184)
17.	Wheat	VL Gehun - 802
18.	Wheat	Urja (HD - 2864)
19.	Wheat	MACS - 6145
20.	Sorghum	Parbhani Moti (PVR-396/SPV-1411)
21.	Fodder Sorghum	Gujarat Fodder Sorghum - 5
22.	Maize	Pratap Makka - 3 (EC - 3108)

23.	Maize	Super Kohinoor (BISCO – 2418)
24.	Maize	Win Orange Sweet Corn
25.	Maize	BIO 9636 (BIO 92136)
26.	Maize	VL Baby Corn – 1 (VL – 78)
27.	Maize	DK – 984 (2784)
28.	Maize	IC – 8209 (72A)
29.	Maize	Vivek Maize Hybrid – 15 (FH – 3176)
30.	Maize	Vivek Maize Hybrid – 17 (FH – 3186)
31.	Maize	Azad Kamal (R 9803)
32.	Pearl Millet	PROAGRO – 9444 (MSH –118)
33.	Pearl Millet	Parbhani Sampada (PPC-6)
34.	Groundnut	Kadiri-5
35.	Groundnut	Kadiri-6
36.	Groundnut	Prutha (Dh-86)
37.	Groundnut	RG - 382
38.	Linseed	BINWA (KL – 210)
39.	Soybean	Palam Soya (P – 30-1-1)
40.	Soybean	TAMS - 38
41.	Sunflower	PROSUN – 09 (PRO – 009)
42.	Sunflower	KBSH-41
43.	Sunflower	KBSH-42
44.	Sunflower	DRSF - 108
45.	Red Clover	PRC - 3
46.	Indian Mustard	CS-54 (CS 614-4-1-4)
47.	Niger	NRS-96-1
48.	Niger	Birsa Niger-2 (BNS-8)
49.	Safflower	Phule Kusuma (JLSF-414)
50.	Sunhemp	Narendra Sanai-1
51.	Sunhemp	Sailash (SH-4)
52.	Daincha	Pant Daincha-1
53.	Daincha	DH-2
54.	Mesta	Nirmal (MT – 150)
55.	French bean	Kailash (SRC-74)
56.	Chickpea	Haryana Kabuli Chana-2 (HK 94-134)
57.	Pigeon pea	Malaviya Chamatkar (MAL-13)
58.	Horse gram	Pratap Kulthi-1 (AK-42)
59.	Moth bean	CAZRI Moth-3 (CZM-99)
60.	Rice bean	Bidhan Rice Bean-2 (KRB-4)
61.	Cluster bean (Guar)	Surya (RGM – 112)
62.	Cotton	RBDV-7 (Pratap Kapi-1)
63.	Cotton	CICR-2 (CISAA-2) (GMS based Hybrid)
64.	Cotton	Shresth (CSHH-198)
65.	Cotton	PH-348 (Yamuna)
66.	Cotton	PA-402
67.	Cotton	Phule LJA-794
68.	Cotton	Mahabeej-106
69.	Cotton	Mahabeej DH-986
70.	Tossa jute	Subala (S-19)
71.	White jute	JRC 80 (Mitali White)

72.	Oat	Bundel Jai 992 (JHO 99-2)
73.	Setaria grass	Setaria-92
74.	Tall Fescue grass	Hima-4
75.	Guinea grass	Bundel Guinea-1 (JHGG 96-5)
76.	Sugarcane	Sweta (CoS 94270)

[F. No. 17-6/2004-SD-IV]

PREM NARAIN, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 123(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् नीचे सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट संख्या वाली भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचनाओं का उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित बीजों की किस्मों का तत्संबंधी अधिसूचना से लोप करके संशोधन करती है, अर्थात् :-

**सारणी**

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	अधिसूचना संख्या
1	2	3	4
1.	नरबदा (ए 51-9)	कपास	का.आ. 5505 तारीख 20 अक्टूबर, 1971
2.	बदनावर -1	कपास	का.आ. 716 तारीख 20 फरवरी, 1970
3.	मल्जारी	कपास	का.आ. 716 तारीख 20 फरवरी, 1970

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 17-6/2004-एसडी-IV]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2005

S.O. 123(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee,

hereby amends the notifications of the Government of India in the Ministry of Agriculture number referred to in column (4) of the table below by omitting from the respective notification, the variety of seeds mentioned in column (2) of the said table, namely: -

**TABLE**

Serial Number (1)	Variety (2)	Kind (3)	Notification Number (4)
1.	Narbada (A 51-9)	Cotton	S.O. 5505 dated the 20 <sup>th</sup> October, 1971.
2.	Badnawar-1	Cotton	S.O. 716 dated the 20 <sup>th</sup> February, 1970.
3.	Maljari	Cotton	S.O. 716 dated the 20 <sup>th</sup> February, 1970.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17-6/2004-SD-IV]

PREM NARAIN, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 124(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.767 (अ) तारीख 6 नवम्बर, 1991 में संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में मद (10क) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(10क) खेती के लिए सिफारिश - राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और मौसम")

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 767 (अ) तारीख 6 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् इसमें का.आ.सं. 519 (अ) तारीख 10.7.92 द्वारा संशोधन किया गया और अन्तिम बार इसमें का.आ.संख्या 939 (अ) तारीख 4 सितम्बर, 2002 द्वारा संशोधन किया गया ।

[फा. सं. 17-6/2004-एसडी-IV]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2005

**S.O. 124(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number 767 (E) dated the 6<sup>th</sup> November, 1991, namely: -

In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for item (xa) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely: -

**"(xa) Recommended for cultivation – Name of States or Union Territories and season".**

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**Note: -** The principal notification was published in the Gazette of India vide number S O 767 (E) dated the 6<sup>th</sup> November, 1991 and subsequently amended vide number S.O. 519 (E) dated the 10<sup>th</sup> July, 1992 and last amended vide number S.O. 939 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 2002.

[F. No. 17-6/2004-SD-IV]

PREM NARAIN, Jt. Secy.